

CLASS:-12TH POLITICAL SCIENCE NOTES IN HINDI, CHAPTER:-1

16. गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ?

उत्तर :- 1) अंतरराष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होना ना कि किसी महाशक्ति को।

2) गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरे की तरफ जा सकता था ऐसे में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र रह सकता था ना दबाव बना सकता था।

17. भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना हुई? समझाओ

उत्तर :- 1) आलोचकों ने कहा गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है भारत इसकी आड़ में अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है

2) भारत के व्यवहार में स्थिरग नहीं है भारत में (1971) की युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी कुछ नहीं तो यह मान लिया कि हम सोवियत खेमे में शामिल हो गया है। जब कि हमने सिर्फ मदद ली थी सोवियत संघ हमारा सच्चा दोस्त था उसने हमेशा हमारी मदद की है।

18. नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं।

उत्तर :- * गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश की अल्पविकसित देशों का दर्जा मिला था यह देश गरीब देश थे इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था

* इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था क्योंकि बिना विकास के कोई देश सही मायने में आजाद नहीं रह सकता

* ऐसे में देश उपनिवेश (गुलाम) भी हो सकते हैं इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक

व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ

* 1972 में (U.N.O) के व्यापार और विकास में संबंधित सम्मेलन (UNCTAD) में नाम से एक रिपोर्ट आई।

* इस रिपोर्ट में वैश्विक- व्यापार प्रणाली से

सुधार का प्रस्ताव किया गया

इस रिपोर्ट में कहा गया

1) अल्पविकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं

2) अल्पविकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी यह देश अपना समान पश्चिमी देश तक बेच सकेंगे

3) पश्चिमी देश में मंगायी या जारी टेक्नोलॉजी प्रद्योगिकी की लागत कम होगी

4) अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी

19. गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे-धीरे बदला है? कैसे?

उत्तर :- जब यह आंदोलन आया था तब इनका काम अपने आप को महाशक्तियों के खेमे से बचाना था ।

लेकिन बाद में इन की प्रकृति बदली अब आर्थिक विकास का मुद्दा ज्यादा प्रबल हो गया था।

20. SEATO, CENTO के बारे में बताओ?

उत्तर :- अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया इन्हीं गठबंधनों को SEATO, CENTO कहा गया है

SEATO= दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन

CENTO= केंद्रीय संधि संगठन

इसके बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किया